

सं. 6 : राज्य सहकारी बैंक - भारतीय रिज़र्व बैंक के पास खाते रखना

(करोड़ रुपये)

नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के मामले में)/अंतिम शुक्रवार/ सूचना देने के लिए नियत शुक्रवार	1990-91	2006-07	2007-08	2007	2008							
				अक्तू.	मई	जून	जुला.	अग.	सितं.	अक्तू. 10	अक्तू. 24	अक्तू. 31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सूचना देनेवाले बैंकों की संख्या	28	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
मांग और मीयादी देयताएं												
कुल जमाराशि (1)	2,152	17,105	19,611	18,442	20,356	20,395	20,602	20,563	20,827	20,120	20,552	20,805
मांग देयताएं	1,831	7,324	6,636	6,142	6,873	6,616	7,081	7,261	7,566	7,492	7,003	6,880
जमाराशि												
अंतर-बैंक	718	1,921	1,539	1,402	1,710	1,567	1,383	1,408	1,204	1,087	1,486	1,371
अन्य	794	3,571	3,628	3,565	3,759	3,604	3,691	3,675	3,721	3,741	3,698	3,849
बैंकों से उधार	181	914	428	339	222	230	272	807	1,333	1,269	427	303
अन्य	139	918	1,041	836	1,183	1,215	1,736	1,371	1,309	1,395	1,392	1,356
मीयादी देयताएं	3,963	39,425	47,523	40,746	50,314	50,410	50,572	50,096	50,353	49,110	51,246	51,261
जमाराशि												
अंतर-बैंक	2,545	25,540	31,111	25,423	33,279	33,149	33,220	32,754	32,764	32,218	33,836	33,769
अन्य	1,359	13,534	15,983	14,876	16,598	16,791	16,911	16,888	17,106	16,379	16,854	16,955
बैंकों से उधार	—	10	8	9	8	8	8	8	16	9	8	8
अन्य	59	341	421	438	428	461	432	446	467	504	549	529
रिज़र्व बैंक से उधार	15	—	—	—	19	19	9	2	22	13	23	—
स्टेट बैंक तथा/अथवा किसी अधिसूचित बैंक (2) और राज्य सरकार से उधार	1,861	13,639	13,988	13,100	12,885	12,703	13,024	12,735	13,340	13,589	11,205	11,214
मांग	116	3,292	3,378	2,994	3,368	3,130	3,154	3,314	3,279	3,575	2,925	3,120
मीयादी	1,745	10,347	10,610	10,106	9,518	9,573	9,870	9,421	10,061	10,014	8,279	8,094
आस्तियाँ												
उपलब्ध नकदी तथा रिज़र्व बैंक के पास शेष	334	3,054	3,639	2,890	4,308	4,215	4,501	4,495	4,453	4,465	3,048	3,687
उपलब्ध नकदी	24	153	143	149	150	149	156	149	154	147	147	158
रिज़र्व बैंक के पास शेष	310	2,900	3,496	2,741	4,158	4,066	4,345	4,346	4,299	4,318	2,901	3,529
अन्य बैंकों के पास चालू खाता शेष	93	486	486	333	366	363	440	424	440	406	508	449
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (3)	1,058	14,146	16,806	15,615	18,452	19,214	19,123	18,907	17,401	17,672	18,036	17,996
मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	498	6,749	7,855	6,571	8,138	7,350	7,408	7,280	7,723	7,188	10,960	10,410
बैंक ऋण (4)	2,553	17,017	17,345	15,585	17,871	17,832	17,486	17,306	17,169	17,000	17,089	16,855
अग्रिम												
ऋण, नकदी ऋण तथा ओवरड्राफ्ट	2,528	17,001	17,336	15,575	17,861	17,822	17,478	17,298	17,163	16,991	17,081	16,846
बैंक से प्राप्य (5)	5,560	30,098	32,466	32,442	30,605	30,702	30,942	31,717	32,976	33,445	29,836	29,357
खरीदे और भुनाए गए बिल	25	16	9	10	11	10	8	8	6	10	9	9
नकदी - जमा अनुपात	15.5	17.9	18.6	15.7	21.2	20.7	21.8	21.9	21.4	22.2	14.8	17.7
निवेश - जमा अनुपात	49.2	82.7	85.7	84.7	90.6	94.2	92.8	91.9	83.5	87.8	87.8	86.5
ऋण - जमा अनुपात	118.6	99.5	88.4	84.5	87.8	87.4	84.9	84.2	82.4	84.5	83.2	81.0

'सारणी संबंधी टिप्पणी' देखें।